



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 4—सितम्बर 10, 2004 (भाद्रपद 13, 1926)
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 4—SEPTEMBER 10, 2004 (BHADRA 13, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय मादाम कामा रोड

मुंबई-400021, दिनांक 31 अगस्त 2004

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत केन्द्रीय बोर्ड में निदेशकों के दो रिक्त स्थानों के लिए चुनाव लड़ने वाले वैध रूप से नामित उम्मीदवारों के नाम एवं पते सूचित करने वाली, दिनांक 17 अगस्त, 2004 को जारी सूचना के संदर्भ में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 31 अगस्त, 2004 को नेहरू सेंटर, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वरली, मुंबई 400018 (महाराष्ट्र) में बैंक के शेयरधारकों की महासभा में हुए चुनाव में निम्नलिखित उम्मीदवारों को बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशकों के रूप में विधिवत घोषित किया गया है।

1. श्री अजय जी. पीरामल
अध्यक्ष, पीरामल इंटरप्राइजेज,
डॉ. आंबेडकर रोड, परेल,
मुंबई-400012

2. डॉ. आई. जी. पटेल
12 अमी सोसायटी
दिवालीपाडा, ओल्ड पादरा रोड,
बडौदा-390015

चंदन भट्टाचार्य
प्रबंध निदेशक

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई, 2004

सं० 3942 - बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा (19) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एतद्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1982 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** : (1) ये विनियम ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम "सरकारी राजपत्र" में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1982 में, विनियम 17 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"17 अपील : (1) अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में निर्धारित अपने ऊपर लगाए गए किसी भी दण्ड या विनियम 12 में उल्लिखित निलंबन आदेश के खिलाफ, आदेश मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

परन्तु, यदि अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है तो वह उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है।

(2) अपीलकर्ता द्वारा अपीलीय प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत की जाएगी जिसकी एक प्रति उस अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है। इस अपील में महत्वपूर्ण कथन, सामग्री एवं बहस के वे मुद्दे होंगे जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है परन्तु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपने आप में पूर्ण होगी।

(3) प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, अपीलकर्ता से अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसे, अपनी टिप्पणियों और संबंधित रिकार्ड के साथ, अपील प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम पैंतालीस दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, से मामले पर टिप्पणियां एवं रिकार्ड प्राप्त होने पर, अपीलीय प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या निलम्बन आदेश/निष्कर्ष न्यायसंगत हैं या क्या दण्ड बहुत अधिक या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा। अपीलीय प्राधिकारी दण्ड/निलम्बन की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि करने, कमी करने या उसे अपास्त करने का आदेश पारित कर सकता है या मामले को, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे गए निदेशों सहित, जिस अधिकारी ने दण्ड लगाया था उसके पास या किसी अन्य अधिकारी के पास भेज सकता है।

परन्तु,

(i) यदि बढ़ाया हुआ दण्ड, जो अपीलीय प्राधिकारी लगाने हेतु प्रस्तावित करता है, विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित अनुसार, कोई बड़ा दण्ड है और विनियम 6 में दिए गए अनुसार मामले में पहले कोई जांच नहीं की गई है तो अपीलीय प्राधिकारी निदेश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार मामले की ऐसी जांच की जानी चाहिए और उसके पश्चात् जांच के रिकार्ड पर विचार-विमर्श करेगा तथा जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगा ;

(ii) यदि अपीलीय प्राधिकारी दण्ड बढ़ाने का निर्णय लेता है परन्तु विनियम 6 में दिए गए अनुसार जांच पहले ही की जा चुकी है, तो अपीलीय प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बढ़ाया हुआ दण्ड उस पर क्यों न लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा।

(5) अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उसका निपटान करेगा :-

परन्तु, इस विनियम में उल्लिखित समय-सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से संबंधित हों और जहां अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध छोटी/बड़ी दण्ड कार्रवाई, मामले की जांच कर रही पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो या केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जैसा भी मामला हो, द्वारा की गई सिफारिशों पर आरंभ की गई हो।

(6) 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित मामलों की अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और मामलों को निपटाए न जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

२९.९/०४

(एस.सी. गुप्ता)

महाप्रबन्धक (कार्मिक)

टिप्पणी : ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1982 में पहले किए गए संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :

क्रम सं०	अधिसूचना सं०	दिनांक
1.	3905	5.11.88 व 12.11.88
2.	3920	26.10.96
3.	3926	19.8.00
4.	3930	25.11.00
5.	3932	31.03.01
6.	3935	29.09.01

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय
कोलकाता-700001, दिनांक 16 अगस्त 2004

सं. 1/2004 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, बैंककारी कंपनी (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केंद्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, जो इस प्रकार है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों का नाम युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी-कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 है ।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रभावी होंगे ।

2. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी-कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में, विनियम 17 के लिए निम्नोक्त विनियम उस स्थान पर विकल्प होगा, जो इस प्रकार है :-

"17 अपील : (i) एक अधिकारी-कर्मचारी, उस पर विनियम 4 में विनिर्दिष्ट किसी प्रकार दंड लगाए जाने पर अथवा विनियम 12 में उल्लिखित निलंबन आदेश के विरुद्ध, चाहे तो अपील प्राधिकारी से अपील कर सकते हैं । बशर्ते कि अपील प्राधिकारी उक्त अपील को निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकार करें, यदि यह पूर्णरूप से पाया जाता है कि अपीलार्थी के पास अपील को समय पर वरीयता न देने के लिए पर्याप्त कारण था ।

(2) अपीलार्थी द्वारा, उस प्राधिकारी, जिन्होंने अपील के विरुद्ध आदेश दिया है, को एक प्रति अग्रेषित करते हुए अपील को अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । उसमें सभी महत्वपूर्ण विवरण और दलील दी जाएगी, जिसपर अपीलार्थी भरोसा करता है, लेकिन उसमें कोई निरादरपूर्ण, असंगत भाषा नहीं होनी चाहिए तथा अपने आप में परिपूर्ण होने चाहिए ।

(3) वह प्राधिकारी, जिन्होंने की गई अपील के विरुद्ध आदेश किया है, अपीलार्थी से अपील की एक प्रतिलिपि प्राप्त करने के पश्चात्, उस पर अपनी टिप्पणी सहित एवं संबद्ध अभिलेखों के साथ उक्त अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगे ।

(4) अपील प्राधिकारी, उस प्राधिकारी जिनके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, से मामले के संबंध में टिप्पणी और अभिलेख प्राप्त करने के बाद यह विचार करेंगे कि क्या निलंबन आदेश/निष्कर्ष न्यायोचित है, अथवा दिए गये दंड अत्यधिक या अपर्याप्त है एवं तदनुसार यथोचित आदेश पारित करेंगे । अपील प्राधिकारी उसे पुष्टि करते हुए, ह्रास करते हुए अथवा दंड/निलंबन को अलग करके या मामले को उस प्राधिकारी के पास अग्रेषित करके जिसने दंड लगाया है अथवा ऐसे निदेश देते हुए किसी अन्य अधिकारी को भेजेंगे जो कि उक्त मामले को नजर में रखकर जैसा उचित समझें आदेश पारित करेंगे ।

बशर्ते कि :

(i) यदि बढ़ाए गए दंड, जिसे अपील प्राधिकारी ने लागू कराने के लिए प्रस्ताव किया, वह विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) में विनिर्दिष्ट प्रमुख दंड है और विनियम 6 में जैसा उल्लिखित उक्त मामले में पूछताछ शुरू नहीं हुई, अपील प्राधिकारी यह निदेश देंगे कि विनियम 6 के प्रावधानानुसार ऐसी पूछताछ प्रारंभ की जाए और इसके पश्चात् पूछताछ को रिकॉर्ड करने पर विचार करेंगे तथा जैसा उचित समझे आदेश पारित करेंगे ।

(ii) यदि अपील प्राधिकारी दंड बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन विनियम - 6 के अनुसार पूछताछ हो चुकी है, तो अपील प्राधिकारी उक्त अधिकारी कर्मचारी को एक कारण बताओ नोटिस देंगे जैसा कि उस पर वर्धित दंड क्यों नहीं लागू किया जाएगा तथा इस संबंध में अधिकारी कर्मचारी द्वारा भेजे गए, यदि कोई, अभ्यावेदन प्राप्त होता है, उस पर विचार करते हुए अंतिम आदेश पारित करेंगे ।

(5) अपीलार्थी से अपील प्राप्त करने की तारीख से 90 दिन के भीतर अपील प्राधिकारी उसे निपटाएंगे । बशर्ते कि इस विनियम में विनिर्दिष्ट समय सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जिनको सतर्कता की दृष्टि से देखा जाता है तथा पुलिस अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश के अनुसार, जैसा मामला है, विषयवस्तु की जांच करते हुए उस अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध भारी/सामान्य दंड देने के लिए कार्यवाही शुरू की गई हो ।

(6) अपील प्राधिकारी द्वारा 90 दिन से अधिक लंबित मामलों की समय-समय पर समीक्षा की जाए और मामलों के निपटान न हो पाने के कारणों को लिखित रूप से रिकॉर्ड किया जाए ।


(ए एस भट्टाचार्य)

महाप्रबंधक (संसाधन प्रबंधन)


टिप्पण : युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अधिकारी-कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमन, 1976 के पिछले संशोधनों को राजपत्र में निम्नानुसार प्रकाशित किया गया था ।

क्रम सं०	अधिसूचना सं०	दिनांक
1.	2/2000	31.7.2000 (दिनांक 9.9.2000 के गजट में प्रकाशित)
2.	1/2001	03.8.2001 (दिनांक 8.9.2001 के गजट में प्रकाशित)
3.	1/2002	16.1.2002 (दिनांक 23.02.2002 के गजट में प्रकाशित)
4.	1/2003	24.3.2003 (दिनांक 3.5.2003 के गजट में प्रकाशित)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 03 अगस्त 2004

संख्या: यू-16/53/94चिकित्सा.2(असम) कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ.(श्रीमती)एल.हजारिका, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर 17.8.2003 से 16.8.2004 तक की अवधि के लिए उप चिकित्सा आयुक्त, (ईस्ट जोन) कोलकाता द्वारा निर्धारित असम केन्द्र के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ ।



(डॉ.(श्रीमती) सुभाष सिंह)
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2004

संख्या: एम-15/13/13/9/2004-यो.एंव वि.

कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 अगस्त, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

“ जिला, तहसील एवं परगना कानपुर के राजस्व ग्राम-गंगपुर, चकबरा, बैरी फूकनपुर बांगर, सिंहपुर कछार, ईश्वरीगंज, बैकुण्ठपुर, फत्तेपुर उत्तर, हीमूपुर बांगर, पैगूपुर, रगेल बांगर, आराजीलशकर, नरहर बांगर, कल्यानपुर कला, नारामउ, रव्यौरा कछार, बैरी अकबरपुर कछार, सम्भरपुर, रव्यौरा नागर, रव्यौरा कटरी, बगदौधी-बांगर एवं बगदौधी कछार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।”



(आर.सी. शर्मा)
संयुक्त निदेशक (यो.एंव वि.)

भारतीय चार्टर्ड प्रात लेखाकार संस्थान, डिसेंट्रलाइज्ड ऑफिस

कोलकाता-700071, दिनांक 03 अगस्त 2004

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

न. 3' ईसीए/8/1/2003-2004 चार्टर्ड प्रात लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (i) एण्ड तीन के अनुसरण में एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों की जारी किये गये प्रेक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गयी तिथियों से सद्द कर दिये गये हैं क्योंकि ये अपने प्रेक्टिस प्रमाण पत्र को रखने को इच्छुक नहीं हैं।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	003774	श्री रंजीत घटजी १७, बिपिन पाल रोड, कोलकाता-७०००२६	01/08/2003
2.	005318	श्री सत्य ब्रत घोष नं० ८४, ५/ई, ब्लॉक - ई न्यु अलीपुर, कोलकाता-७०००५३	01/04/2003
3.	005505	श्री मित्र कुमार दत्ता फ्लेट - ३बी, २५/२/२४५/१, प्रिंस गुलाम मो० साह रोड कोलकाता - ७०००९५	01/04/2003
4.	007483	श्री रवीन्द्र नारायण सेन ६८डी, पूरना दास रोड, कोलकाता - ७०००२९	01/04/2003
5.	012709	श्री रथीन्द्र नाथ दत्ता प्लॉट वाई-१४ ब्लॉक-ईपी सेक्टर-५ साउथ लेक इलेक्ट्रॉनिक कमप्लेक्स, बिधान नगर, कोलकाता - ७०००९९	06/06/2003
6.	012769	श्री घुव ज्योती पाल फ्लेट नं०-३बी, २९, जतीन बगची रोड, कोलकाता-७०००२९	31/03/2003
7.	015094	श्री बसन्त कुमार पारेख प्लॉट नं० ३९२८८ ब्लॉक ६ पोस्ट बॉक्स - ६०९३८६ जी/वेस्ट, गबोरोन, बोटसवाना	15/07/2003

8.	050120	श्री रूपेन्द्र नारायण राय प्लॉट वाई-१४ ब्लॉक-ईपी सेक्टर-५, साउथ लेक इलेक्ट्रॉनिक कमप्लेक्स बिधान नगर, कोलकाता - ७०००९९	05/06/2003
9.	050460	श्री होमनाथ बल्लभ प्लॉट वाई-१४ ब्लॉक-ईपी सेक्टर-५, साउथ लेक इलेक्ट्रॉनिक कमप्लेक्स बिधान नगर, कोलकाता - ७०००९९	06/06/2003
10.	050962	श्री सुब्रत बसु १२डी, स्टेशन रोड, फ्लेट नं० २-सी, बालीगंज, कोलकाता-७०००९९	10/03/2003
11.	052110	श्री अरुण कुमार गरोदीया, पी-४९, प्रिंसप स्ट्रीट, ४ ताला, रूम नं० ४०२ / ४०३ कोलकाता-७०००७२	25/08/2003
12.	053706	श्री दीपक चटर्ज्य पी-८२, सी.आई.टी. रोड, इनटाली पब्लिशिंग, कोलकाता-७०००१४	03/07/2003
13.	054286	श्री पवन कुमार जलान ७९, हास्पीटल स्ट्रीट, २ ताला, कोलकाता-७०००७२	02/09/2003
14.	054315	श्री मनोज माहेश्वरी सी/ओ, ट्रेड एण्ड इन्डस्ट्रीयल सिटीकेट ३/९, बैंकहाल स्ट्रीट, कोलकाता-७००००९	01/04/2003
15.	054359	श्री दीपक कुमार सेन अमर इनक्लेम, फ्लेट नं० ए/६०२, प्रसान्त नगर अजरी स्क्वायर, नागपुर-४४००९५	15/03/2003

16.	054840	श्री जगदीप गोगुली ९९/५/९/२, बालीमज प्लेस, कोलकाता-७०००९९	10/06/2003	28.	058796	श्री राजेश गुराशिया किंग्स आपाटमेंट प्लेट नं ९२ सेकण्ड फ्लोर पंचवटी कम्पलेक्स वि आई पी रोड कोलकाता-७०००५२	11/04/2003
17.	055512	श्री सोमेश्वर नाथ दत्ता ७६ए, बीडन स्ट्रीट, कोलकाता-७००००६	02/07/2003	29.	059130	श्री सोरापति मुखोपाध्याय ९ए, चौरंगि टेरस कोलकाता-७०००२०	01/07/2003
18.	055805	श्री शिवा कुमार नाटरनजन ४८५, टसकार्डरा झईव सेन जोश सीए ९५९२३ सेन जोश-०, यूएसए	01/04/2003	30.	059988	श्री मुकेश कुमार शूखाना ९७/९९, जलीया पाडा सेकण्ड बाई लेन, ४ तल्ला, सालकिया हावडा-७९९९०६	20/08/2003
19.	055817	श्री जयकेश पोदार २२ए, ब्रन्दावान बोस लेन, कोलकाता-७००००६	01/04/2003	31.	060148	श्री अलोक कुमार संघहाई बी/बी/९, राजाराहट रोड, तलतल्ला बगूहाटी, कोलकाता-७०००५९	15/05/2003
20.	056238	श्री जीतेन्द्र कुमार केशरी ९०ए कृष्णा राम बोस स्ट्रीट, कोलकाता-७००००४	01/09/2003	32.	060402	श्री मनीस कुमार बजाज ४७/४८, धितामोनी दे रोड, २ फ्लोर हावडा-७९९९०९	30/07/2003
21.	056455	श्री राहुल कृष्णा मितरा २७/९पी, बालाराम घोष स्ट्रीट, कोलकाता-७००००४	06/06/2003	33.	060530	श्री भरतएनदू सुरेका ४३ कैलाश बोस स्ट्रीट, कोलकाता-७००००६	22/08/2003
22.	056502	श्री पावीतरा मोहन साहु प्लोट नं० ९२६४ इंदारा निवास, नयापल्ली, ओपीपी : एमजीएम स्कूल भूभनेश्वर-७५९०९२	31/03/2003	34.	060691	श्री हितेश भोरा एन २९ अरपुली लेन, आपोजिट मेडिकल कालेज होस्पिटल कोलकाता-७०००९२	01/04/2003
23.	056932	श्री अनुज कुमार अग्रवाल ५८डी, एन सी रोड रूम नं० - ६९० कोलकाता-७००००९	13/09/2003	35.	060697	श्री दीपक कुमार सी/ओ जोधानी अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स ९२९ एन सी रोड ५ तल्ला, रूप नं० ५९ कोलकाता-७००००९	08/08/2003
24.	057136	श्री सुनील कुमार बंसल ९०६ किरन चंद्र संघ रोड, गेज गाडान सी२ तीन तल्ला सीभपुर, हावडा-७९९९०२	31/05/2003	36.	060924	श्री अभिषेक जवाहर सी/ओ भारत एस राजत एण्ड कम्पनी, के पी एम जी हाऊस २०/२ विटहल मलया रोड बंगलौर-५६०००९	01/04/2003
25.	057335	श्री राकेश राम ५९ पंचनल्ला लेन, बेहाला, कोलकाता-७०००३४	01/04/2003				
26.	058139	श्री राकेश सुराया ९४३/डी, सरत बोस रोड कोलकाता-७०००२६	01/04/2003				
27.	058436	श्री मनोज सुरेका ७३/९, कोटेन स्ट्रीट, तीन तल्ला, बैंक स्टेयस कोलकाता-७००००७	01/05/2003				

37.	060952	श्री अतुल कुमार छुगछुनवाला सी/ओ प्रदीप बागरिया, ४ तला मानसरोवर अपार्टमेन्ट, ८९/२७७ एण्ड २७८ बंगुर पार्क, जिला : हुगली, रिसका-७१२२४८	01/07/2003	47.	061482	श्री अजय कुमार महेस्वरी सी/ओ एस सी लाहोती रादेव अपार्टमेन्ट ३ तला, १७६/१, जी. टी. रोड (नार्थ) सलकिया, हावड़ा-७१११०६	12/08/2003
38.	061139	श्री हितेन गौधी एन ५६/७० एन एस सी बोस रोड, फस्ट फ्लोर, कोलकाता-७०००४०	31/03/2003	48.	061529	मिस सिखा केडिया गुजन बिल्डिंग ११ बी/१, पाम एवन्यु कोलकाता-७००००९	01/04/2003
39.	061175	श्री अरीदम सुहासरीया ८२बी शम्भू नाथ पंडित स्ट्रीट, ४बी, आनंद अपार्टमेन्ट कोलकाता-७०००२०	01/04/2003	49.	061622	मिस बबली गुप्ता कर ४५/१३, मुरे एवन्यु कोलकाता-७०००४०	11/07/2003
40.	061219	श्री सचिन जेसवाल ९५ बेम्बू घटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता-७००००९	05/06/2003	50.	061622	श्री उमेश भगत श्री जगदीश भगत पोस्ट एण्ड गौव : बरदवारी मालदा	27/05/2003
41.	061326	श्री अजित वर्मा सि/ओ के एस बोटरा एण्ड कम्पनी, मरकेन्टाईल बिल्डिंग, ई ब्लोक फस्ट फ्लोर, ९/१२ लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता-७००००९	19/06/2003	51.	061670	श्री अमितभा चौधरी श्री धीरेन्द्र नाथ चौधरी २, देशबन्धु नगर पोस्ट : सोवपुर कोलकाता-७००११०	19/04/2003
42.	061342	श्री सौरभ गुप्ता ३ए, नेशनल लाईब्रेरी एवन्यु, अलीपुर, कोलकाता-७०००२७	22/05/2003	52.	061720	श्री रवि अग्रवाल २८/१, दुर्गापुर लेन, अलीपुर, कोलकाता-७०००२७	01/05/2003
43.	061355	श्री निधि सुराना पी-२१/१ सीआईटी रोड, एससीएच-७ एम, काकूरगौडी, कोलकाता-७०००५४	01/04/2003	53.	061757	श्री हर्ष मित्तल पी १४३, सी. ई. टी. रोड, स्कीम ५२ इनटेली, कोलकाता-७०००१४	04/08/2003
44.	061396	श्री ललित कुमार घेतानी पी-१२७ सी आई टी रोड इनटेली, कोलकाता-७०००५४	01/08/2003	54.	061757	श्री अमित पटवारी ई-५ महात्मनी अपार्टमेन्ट राजीव भवन के पीछे फर्स्ट बाई लेन, तारुन नगर, जी. एस. रोड गुवाहाटी-७८१००५	18/06/2003
45.	061432	श्री धिरज अग्रवाल सेबायन रेसिडेन्टस कम्प्लेक्स, २० बागुहटि रोड (आमबग) कोलकाता-७०००२८	31/03/2003	55.	062053	श्री सजन अग्रवाल २९/बी/३ बेद्याराम घटर्जी रोड, कोलकाता-७०००३४	29/08/2003
46.	061459	श्री दिनेश अग्रवाल ४२७, सिटी सेक्टर, १९ सेयनागोफ स्ट्रीट, कोलकाता-७००००९	30/04/2003	56.	062076	श्री सम्राट सेन, फ्लैट नं० ११, बिल्डिंग नं० १५ रक्षक नगर फेस-१ खरदी, पुने-४११०१४	14/06/2003

57.	062079	श्री तुलसी अनाथ दत्ता ११९, लोक ईस्ट, ६ रोड कोलकाता-७०० ०४५	01/04/2003	61.	062201	श्री पंकज जैन 33/१, एन. एस. रोड मार्शल क्लक्स ७ ताला, आर नं० ७०१ कोलकाता-७००००१	16/03/2003
58.	062115	श्री अरविन्द कोखरी ६५/४, देवनीबास रोड मुनमुन एपार्टमेंट्स ४ ताला, प्लेट नं०-१० कोलकाता-७०००४४	01/04/2003	62.	062274	श्री राखी सामू २४ कालाकार स्ट्रीट, कालाकार मार्केट, ४ ताला, कोलकाता-७००००७	08/09/2003
59.	062117	श्री देओनाथ पाल १४५/२, शिवपुर रोड हावड़ा-७१११०२	22/07/2003	63.	085628	श्री अजोय गोपाल मुखर्जी सी/ओ मन्दी एन्ड एसोसियेशन, कोलकाता-७००००१	01/08/2003
60.	062183	श्री मिलटन घोष १८९, विवेकानन्द रोड माईकल पल्ली, जिला-हुगली, सेवकापुरी-७१२२२३	12/06/2003	64.	097055	श्री भारत भागवानी उदीछी कॉ-ओपी हाऊसींग सोसाइटी लि० प्लेट नं० ए/१२, ग्रीन ताला, पी-२७/१ सी. आई. टी स्कीम सातएम कोलकाता-७०००५४	31/03/2003

अशोक इल्लिया
सचिव

रक्षा मंत्रालय

छावनी परिषद, खडकी

दिनांक मई, २००४

जैसा कि खडकी छावनी में सफाई कर पर संशोधित दरों से कर लगाने के प्रस्ताव का मसौदा छावनी अधिनियम १९२४ (१९२४ का २) की धारा ६१ के अन्तर्गत, छावनी परिषद खडकी की सूचना संख्या. ७/१/कर/सीटी./पृ.सं.२३ दिनांक ८ मार्च २००४ द्वारा प्रकाशन की तिथि से ३० दिन के अन्दर आपत्तियाँ और सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित किया गया ;

जैसा कि उपरोक्त सूचना १० मार्च २००४ को अखबारों में प्रकाशित की गयी ;

जैसा कि परिषद ने २१ अप्रैल, २००४ को हुई अपनी बैठक में जनता से प्राप्त की गई आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया ;

जैसा कि परिषद ने सफाई कर की दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया ;

जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने उपरोक्त कर के प्रारूप को अनुमोदित किया और उपरोक्त अधिनियम की धारा ६३ के तहत, छावनी परिषद खडकी को संशोधित कर लगाने की अनुमति दी ;

अतः छावनी अधिनियम १९२४ (१९२४ का २) की धारा ६० द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के का.नि.आ. २४९४ दिनांक ११ अक्टूबर १९४७ की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए या न किए गए कार्यकलापों को छोड़कर, छावनी परिषद खडकी, केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, निम्नलिखित सूची में विनिर्दिष्ट दरों से सफाई कर लागू करता है :

सूची

भवन का ब्योरा	सफाई कर की दर
मिजी शौचालय के बिना भवन	वार्षिक करयोग्य मूल्य का १०%
मिजी शौचालय के सहित भवन	वार्षिक करयोग्य मूल्य का १२%

का.नि.आ.संख्या ७/१/कर/सी.टी.

से०र ५५८

छावनी अधिशासी अधिकारी
खडकी छावनी

रक्षा मंत्रालय

छावनी परिषद, खडकी

दिनांक मई, २००४

जैसा कि खडकी छावनी में मनोरंजन पर संशोधित दरों से कर लगाने के प्रस्ताव का मसौदा छावनी अधिनियम १९२४ (१९२४ का २) की धारा ६१ के अन्तर्गत, छावनी परिषद खडकी की सूचना संख्या. ७/१/कर/ईटी./पृ.सं.६६ दिनांक ८ मार्च २००४ द्वारा प्रकाशन की तिथि से ३० दिन के अन्दर आपत्तियाँ और सुझाव मांगने के लिए प्रकाशित किया गया ;

जैसा कि उपरोक्त सूचना १० मार्च २००४ को अखबारों में प्रकाशित की गयी ;

जैसा कि परिषद ने २१ अप्रैल, २००४ को हुई अपनी बैठक में जनता से प्राप्त की गई आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया ;

जैसा कि परिषद ने मनोरंजन कर की दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया ;

जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने उपरोक्त कर के प्रारूप को अनुमोदित किया और उपरोक्त अधिनियम की धारा ६३ के तहत, छावनी परिषद खडकी को संशोधित कर लगाने की अनुमति दी ;

अतः छावनी अधिनियम १९२४ (१९२४ का २) की धारा ६० द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के का.नि.आ.केसीबी/१ दिनांक अगस्त १९७९, की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए या न किए गए कार्यकलापों को छोड़कर, छावनी परिषद खडकी, केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, निम्नलिखित सूची में विनिर्दिष्ट दरों से मनोरंजन कर लागू करता है :

सूची

व्यौरा	मनोरंजन कर की दर
५०० सीट की क्षमतावाले सीनेमा टॉकीज व नाटयशाला प्रेक्षागृह	२०/- रु. प्रति शो
५०० सीट से अधिक क्षमतावाले सीनेमा टॉकीज व नाटयशाला प्रेक्षागृह	३०/- रु. प्रति शो
सर्कस, संगीतमय आयोजन या अन्य मनोरंजन/प्रदर्शनी	५०/- रु. प्रति शो

का.नि.आ.संख्या.७/१/कर/ई.टी.

से० न० ५५२


छावनी अधिशासी अधिकारी
खडकी छावनी

STATE BANK OF INDIA

Central Office, Madame Cama Road
Mumbai-400021, the 31st August 2004

With reference to the Notice dated the 17th August, 2004 containing the names and addresses of the validly nominated candidates contesting for the election for the two vacancies of Directors on the Central Board under Section 19 (c) of the State Bank of India Act, notice is hereby given that the following candidates have been duly declared elected as Directors on the Bank's Central Board in the election held at the General Meeting of the Shareholders of the Bank on the 31st August, 2004 at Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400018 (Maharashtra)

1. Shri Ajay G. Piramal.
Chairman, Piramal Enterprises,
Dr. Ambedkar Road, Parel, Mumbai – 400 012
2. Dr. I.G. Patel
12, Ami Society, Diwalipara, Old Padra Road,
Baroda – 390015


(CHANDAN BHATTACHARYA)
MANAGING DIRECTOR & GE(CB)

ORIENTAL BANK OF COMMERCE
HEAD OFFICE, NEW DELHI

New Delhi, dated the 19th July, 2004

No. 3942 – In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend further the Oriental Bank of Commerce Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1982 namely :-

1. **Short title and commencement** : (1) These Regulations may be called Oriental Bank of Commerce Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oriental Bank of Commerce Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1982, for Regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely :-

"17. Appeal : (1) An officer employee may prefer an appeal to the Appellate Authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to in Regulation 12 :

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

- (2) The appeal shall be presented to the Appellate Authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.
- (3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate Authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal.
- (4) The Appellate Authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against, consider whether the order of suspension/ findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appellate Authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty/ suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that :

- (i) If the enhanced penalty, which the Appellate Authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper;
- (ii) If the Appellate Authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in regulation 6, the Appellate Authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.

- (5) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appellant :

Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

- (6) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate Authority and reasons for non-disposal of the cases shall be recorded in writing.



(S.C. GUPTA)
GENERAL MANAGER (PER.)

Foot Note :- Earlier amendments to the Oriental Bank of Commerce Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1982 were published in the Gazette as per details given below :-

<u>Sl.No.</u>	<u>Notification No.</u>	<u>Dated</u>
1.	3905	05.11.1988 & 12.11.1988
2.	3920	26.10.1996
3.	3926	19.08.2000
4.	3930	25.11.2000
5.	3932	31.03.2001
6.	3935	29.09.2001

UNITED BANK OF INDIA
HEAD OFFICE

Kolkata-700001, the 16th August 2004

No. 1/2004 – In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of United Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend further the United Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, namely :-

1. **Short title and commencement** : (1) These Regulations may be called the United Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2004.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the "Official Gazette".
2. In the United Bank of India Officer Employees' Discipline and Appeal) Regulations, 1976, for regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely :-

"17 Appeal : (1) An officer employee may prefer an appeal to the Appellate authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to in Regulation 12 :

Provided that the Appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(2) The appeal shall be presented to the Appellate authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal.

(4) The Appellate authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against, consider whether the order of suspension/findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appellate authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty/suspension or remitting the case to the

authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that :

(i) *If the enhanced penalty, which the Appellate authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper;*

(ii) *If the Appellate authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in regulation 6, the Appellate authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.*

(5) *The Appellate authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appellant:*

Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

(6) *The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate authority and reasons for non-disposal of the cases shall be recorded in writing."*


(A. S. BHATTACHARYA)
GENERAL MANAGER
RESOURCES MANAGEMENT


Note : Earlier amendments to the United Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below :

Sl. No.	Notification No.	Dated
1.	2/2000	31.07.2000 (Published in the Gazette dt. 09.09.2000)
2.	1/2001	03.08/2001 (Published in the Gazette dt. 08.09.2001)
3.	1/2002	16.01.2002 (Published in the Gazette dt. 23.02.2002)
4.	1/2003	24.03.2003 (Published in the Gazette dt. 03.05.2003)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, Dated 3rd August 2004

No. U-16/53/94/Med.II(Assam):- In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 103 of the ESI(General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No.1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise Dr.(Mrs.)L.Hazarika, PTMR to function as Medical Authority for Assam Centre Ahmedabad for the period of one year from 17.8.2003 to 16.8.2004 for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Kolkata for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.


(DR. (MRS.) S. SINGH)
MEDICAL COMMISSIONER,

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 13th August 2004

No. N-15/13/13/9/2004-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st August 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttar Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttar Pradesh namely

"Areas comprising the Revenue Villages of Gangpur, Chakbara, Bairry Phookanpur Bangar, Singhpur Kachhar, Ishwariganj, Bakunthpur, Fattepur Uttar, Heemupur Bangar, Paigoopur, Ragail Bangar, Aareji Laskar, Narhar Bangar, Kalyanpur Kala, Naramau, Khyora Kachhar, Bairry Akhabarpur Kachhar, Sambharpur, Khyora Nagar, Khyorakatari, Bagdaudhi - Bangar and Bagdaudhi - Kachhar situated in Tehsil, Pargana & District Kanpur of U.P."


(R.C. SHARMA)
JOINT DIRECTOR(P&D)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA DECENTRALISED OFFICE

Kolkata-700071, the 03rd August 2004

(Chartered Accountant)

3ECA/8/1/2003-2004 : In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	MRN	Member Name & Address	Cancel dt.
1.	003774	Mr. Chatterjee Ranajit FCA 17 Bapin Pal Road Kolkata - 700026	01/08/2003
2.	005318	Mr. Ghosh Satya Brata FCA No. 84 5/E Block 'E' New Alipara Kolkata - 700053	01/04/2003
3.	005505	Mr. Dutta Kumar Mitra FCA Flat 3B, 25/2/245/1 Prince Golan Md Shah Road Kolkata - 700 095	01/04/2003
4.	007483	Mr. Sen Rabindra Narayan FCA 68D Purna Das Road Kolkata - 700029	01/04/2003
5.	012709	Mr. Datta Rathindra Nath FCA Plot Y-14 Block -EP Sector -V Salt Lake Electronic Complex Bidhan Nagar Kolkata - 700091	06/06/2003
6.	012769	Mr. Pal Dhrubo Jyoti ACA Flat No. 3B 21 Jatin Bagchi Road Kolkata - 700 029	31/03/2003
7.	015094	Mr. Parakh Vasant Kumar ACA Plot No. 39268 Block 8 P.O. Box # 601386 G/West Gaborone Botswana	15/07/2003
8.	050120	Mr. Roy Roopendra Narayan FCA Plot No. Y 14 Block EP Sector V Salt Lake Electronics Complex Bidhan Nagar Kolkata - 700 091	05/06/2003
9.	050460	Mr. Ballav Somnath FCA Plot No. Y-14 Block -EP Sector -V Salt Lake Electronic Complex Bidhan Nagar Kolkata - 700091	06/06/2003
10.	050962	Mr. Basu Subrata FCA 12-D Station Road Flat No. 2-C Ballygunge Kolkata - 700019	10/03/2003
11.	052110	Mr. Garodia Arun Kumar FCA P-41 Princep Street 4th Floor Room No. 402 & 403 Kolkata - 700072	25/08/2003
12.	053706	Mr. Chattrath Deepak FCA P-82, C I T Road Entally Padmapukur Kolkata - 700014	03/07/2003
13.	054286	Mr. Jalan Pawan Kumar FCA 7A Hospital Street 2nd Floor Kolkata - 700 072	02/09/2003
14.	054315	Mr. Maheshwari Manoj ACA C/o Trade & Industrial Syndicate 3/1 Bankshali Street Kolkata - 700001	01/04/2003
15.	054359	Mr. Sen Deepak Kumar ACA Amar Enclave Flat No. A/802 Prashant Nagar AJRI Square Nagpur - 440015	15/03/2003
16.	054840	Mr. Ganguli Jaideep ACA 99/5/1/2 Ballygunge Place Kolkata - 700019	10/06/2003
17.	055512	Mr. Datta Saumendra Nath FCA 78A Beadon Street Kolkata - 700006	02/07/2003
18.	055805	Mr. Natarajan Shiva Kumar ACA 485 Tuscarora Drive San Jose CA 95123 San Jose-0 USA	01/04/2003
19.	055817	Mr. Podder Joyakash ACA 22A Brindaban Bosa Lane Kolkata - 700006	01/04/2003
20.	058238	Mr. Keshari Jitendra Kumar FCA 10A Krishna Ram Bose Street Kolkata - 700004	01/09/2003
21.	058455	Mr. Mitra Rahul Krishna ACA 27/1P, Bataaram Ghosh Street Kolkata - 700004	06/06/2003
22.	058502	Mr. Sahoo Pabitra Mohan FCA Plot NO. 1264 Indira Niwas, Nayapalli Opp : MGM School Bhubaneswar - 751012	31/03/2003
23.	058932	Mr. Agarwal Anoj Kumar FCA 58D N. S. Road Room No. 610 Kolkata - 700001	13/09/2003
24.	057138	Mr. Bansal Sunil Kumar FCA 106 Kiran Chandra Singha Road Ganges Garden C2 3rd Floor Shibpur Howrah - 711102	31/05/2003
25.	057335	Mr. Ram Rakesh FCA 59 Panchanantala Lane Behala Kolkata - 700034	01/04/2003
26.	058339	Mr. Suraiya Rakesh ACA 143/D, Sarat Bose Road Kolkata - 700026	01/04/2003

27.	058436	Mr. Sureka Manoj FCA 73/1 Cotton Street 3rd Floor Back Stairs Kolkata - 700007	01/05/2003	42.	061342	Mr. Gupta Saurabh ACA 3A, National Library Avenue Alipora Kolkata - 700 027	22/05/2003
28.	058796	Mr. Guraria Rajesh FCA King's Apartment Flat No. 12 2nd Floor Panchwati Complex V I P Road Kolkata - 700052	11/04/2003	43.	061355	Ms. Surana Nishi ACA P-21/1 CIT Road SCH- VII M Kankurgachi Kolkata - 700054	01/04/2003
29.	059130	Mr. Mukhopadhyay Sourapati ACA 9A Chowringhee Terrace Kolkata - 700020	01/07/2003	44.	061396	Mr. Chetani Lalit Kr. ACA P-127 C I T Road Entally Kolkata - 700014	01/08/2003
30.	059986	Mr. Sukhani Mukesh Kumar ACA 17/19 Jalis Para 2nd Bye Lane, 4th Floor Salkia Howrah - 711106	20/08/2003	45.	061432	Mr. Agarwal Dhiraj ACA Sebayan Residential Complex 20 Baguati Road (Ambagan), 3rd Floor Flat - G Kolkata - 700028	31/03/2003
31.	060148	Mr. Sanghai Alok Kumar ACA B/B/1 Rajarhat Road Taltala Baguihati Kolkata - 700059	15/05/2003	46.	061459	Mr. Agarwal Dinesh ACA 427 City Centre 19 Synagogue Street Kolkata - 700001	30/04/2003
32.	060402	Ms. Bajaj Manish Kumar ACA 47/48 Chintamani Dey Road 2nd Floor Howrah -711101	30/07/2003	47.	061462	Mr. Maheshwari Ajay Kumar ACA C/o L C Lahoty Radev Apartments 3rd Floor 176/1 G T Road (N) Salkia Howrah -711106	12/08/2003
33.	060530	Mr. Sureka Bharatendu ACA 43 Kailash Bose Street Kolkata - 700006	22/08/2003	48.	061529	Ms. Kedia Shikha ACA "Gunjan Building" 11 B/1 Palm Avenue Kolkata -700019	01/04/2003
34.	060691	Mr. Vora Hitesh N ACA 21 Arpuli Lane Opp Medical College Hospital Kolkata - 700012	01/04/2003	49.	061590	Ms. Kar Gupta Babli ACA 45/13 Moore Avenue Kolkata - 700040	11/07/2003
35.	060697	Mr. Deepak Kumar ACA C/o Jodhani Agarwal & Associates 121 N S Road 5th Floor Room No. 59 Kolkata - 700001	08/08/2003	50.	061822	Mr. Bhagat Umesh ACA S/o Sri Jagdish Bhagat P.O. & Vill : Baraduary Malda -0	27/05/2003
36.	060924	Mr. Jhavar Abhishek ACA C/o Brarat 5 Raut & Co. KPMG House 20/2 Vittal Malliya Road Bangalore -560001	01/04/2003	51.	061870	Mr. Chaudhuri Amitabha ACA C/o Mr. Dharendra Nath Chaudhuri No. 2 Deshbandhu Nagar P.O. Sodepur Kolkata - 700110	19/04/2003
37.	060952	Mr. Jhunjhunwala Atul Kumar ACA C/o Pradeep Bagaria 4th Floor Mansarovar Apartment 69/277 & 276 Bangur Park Dt. Hooghly Rishra-712246	01/7/2003	52.	061720	Mr. Agarwal Ravi ACA 28/1 Durgapur Lane Alipore Kolkata -700027	01/05/2003
38.	061139	Mr. Gandhi Hiten N ACA 56/70 N S C Bose 1st Floor Kolkata -700040	31/03/2003	53.	061757	Mr. Mittal Harsh ACA P143 C I T Road Scheme 52 Entally Kolkata -700014	04/08/2003
39.	061175	Mr. Suhasaria Arindam ACA 82B Shambhu Nath Pandit St, 4B Anand Apartment Kolkata - 700020	01/04/2003	54.	061971	Mr. Patwari Amit ACA E-5 Mahalakshmi Apartments Behind Rajiv Bhawan 1st Bye Lane Tarun Nagar; G S Road Guwahati - 781005	18/06/2003
40.	061219	Mr. Jaiswal Sachin ACA 95 Bechu Chatterjee Street Kolkata - 700009	05/06/2003	55.	062053	Mr. Agarwal Sajjan ACA 29/B/3 Becharam Chatterjee Rd, Kolkata -700034	29/08/2003
41.	061326	Mr. Verma Ajit ACA C/o K S Bothra & Co. Mercantile Building E Block 1st Floor 9/12 Lal Bazar Street Kolkata - 700001	19/06/2003	56.	062076	Mr. Sen Samrat ACA Flat No. 19 Bldg No. 15 Rakshak Nagar Phase-1 Kharadi Pune -411014	14/06/2003

57.	062079	Mr. Datta Tulsi Prasad ACA 11A Lake East 6th Road Kolkata -700075	01/04/2003	61.	062201	Mr. Jain Pankaj ACA 33/1-N S Road Marshall House 7th Floor R No. 701 Kolkata -700001	16/05/2003
58.	062115	Mr. Kothari Arvind ACA 65/4, Debinibash Road Munmun Apts 4th Floor, Flat No. 10 Kolkata -700074	01/04/2003	62.	062274	Ms. Saboo Rakhee ACA 24 Kalakar Street Kalakar Market 4th Floor Kolkata -700007	08/09/2003
59.	062117	Mr. Pal Debnath ACA 175/2 Shibpur Road Howrah - 711102	22/07/2003	63.	085628	Mr. Mookerjee Ajoy Gopal FCA C/o Nundl & Associates 7C K S Roy Road Kolkata -700001	01/08/2003
60.	062163	Mr. Ghosh Milton ACA 189 Vivekananda Road Michael Pally Dist. Hooghly Sheoraphully-712223	12/06/2003	64.	097055	Mr. Bagwanl Bharat ACA Udichi Co-Op Housing Society Ltd. Flat No. A/12 3rd Floor P-27/1 C I T Scheme VIIM Kolkata -700054	31/03/2003


(ASHOK HALDIA)
Secretary

MINISTRY OF DEFENCE**CANTONMENT BOARD, KIRKEE CANTONMENT**
dated the _____ May, 2004.

S.R.O. 7/1/Taxes/CT – WHEREAS a draft of proposal to impose revised rates of Conservancy Tax based on Annual Rateable Value within Kirkee Cantonment was published with Kirkee Cantonment Board's Notice number 7/1/Taxes/CT/P-23 dated the 8th March, 2004 as required by Section 61 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) for inviting objections and suggestions till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said Notice.

WHEREAS the said notice was published in local newspapers on 10th March 2004 ;

WHEREAS all the objections received from public have been duly considered by the Cantonment Board in its meeting held on 21st April, 2004;

WHEREAS the Board have decided to revise the rates of Conservancy Tax;


AND WHEREAS the Central Government has approved and confirmed the said draft of revised tax and authorised the Board to impose revised tax as required by Section-63 of the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Defence number SRO 2494 dated the 11th October 1947 in so far as it relates to the Conservancy Tax on buildings situated within Kirkee Cantonment, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Cantonment Board, Kirkee with the previous sanction of the Central Government hereby imposes the Conservancy Tax at the rates specified in the table below:

TABLE

Description of Buildings	Rates of Conservancy Tax
Buildings without private latrines	@ 10% of Annual Rateable Value
Buildings with private latrines	@ 12% of Annual Ratesable Value Value.

No.7/1/Taxes/CT


CANTONMENT EXECUTIVE OFFICER
KIRKEE CANTONMENT
(S R NAYYAR)

MINISTRY OF DEFENCE
CANTONMENT BOARD, KIRKEE CANTONMENT
 dated the _____ May, 2004.

S.R.O. 7/1/Taxes/ET - WHEREAS a draft of proposal to impose revised tax on entertainment within the Cantonment of Kirkee was published with Kirkee Cantonment Board's notice number 7/1/Taxes/ET/P-66 dated the 8th March 2004 as required by Section 61 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) for inviting objections and suggestions till expiry of thirty days from the date of publication of the said notice ;

WHEREAS the said notice was published in the local newspapers on the 10th March 2004 ;

WHEREAS the objections received from the public have been duly considered by the Cantonment Board in its meeting held on 21st April, 2004;

WHEREAS the Board have decided to revise the rates of Entertainment Tax;

AND WHEREAS the Central Government has duly approved and confirmed the said draft of tax and has authorised the Board to impose revised tax as required under Section 63 of the said Act ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Defence number SRO KCB/1 dated August 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Cantonment Board, Kirkee with the previous sanction of the Central Government hereby imposes the Entertainment Tax at the rates specified in the table below :

TABLE

Description	Rates of Entertainment Tax
Cinema Talkies & Theatres for drama with sitting capacity upto 500 seats.	Rs.20/- per show
Cinema Talkies & Theatres for drama with sitting capacity above 500 seats.	Rs.30/- per show.
Circus, Musical Concert or any other entertainment/exhibition	Rs.50/- per show

No.7/1/Taxes/ET

Seema

CANTONMENT EXECUTIVE OFFICER
KIRKEE CANTONMENT
(S R NAYYAR)